

संगीत नाटक अकादेमी
संगीत, नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादेमी
संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की स्वायत्त संस्था
नई दिल्ली

प्रेस विज्ञप्ति

**संगीत नाटक अकादेमी द्वारा वर्ष 2016 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा
पुरस्कार की घोषणा**

संगीत, नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादेमी- संगीत नाटक अकादेमी के महापरिषद की 24 मई 2017 को गुवाहाटी (असम) में बैठक हुई थी। इसमें भारत के उन 33 युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार हेतु चयनित किया गया, जिन्होंने प्रदर्शन कलाओं के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है।

संगीत नाटक अकादेमी द्वारा वर्ष 2006 से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार आरम्भ किए गए थे। इन पुरस्कारों का उद्देश्य उत्कृष्ट युवा प्रतिभाओं की खोज और प्रोत्साहन है, ताकि उन्हें उनके विशिष्ट क्षेत्रों में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो सके, जिससे कि वे अपनी कला को पूर्ण समर्पण के साथ सीखने और समृद्ध करने को उत्प्रेरित हो सकें। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 40 वर्ष से कम उम्र के कलाकारों को दिया जाता है। युवा पुरस्कार के लिए चुने गए कलाकारों के नाम इस प्रकार हैं :

संगीत क्षेत्र में चयनित आठ युवा कलाकार हैं : यशस्वी सिरपोटकर और कौशिक ऐथल (हिन्दुस्तानी संगीत- गायन), यशवंत वैष्णव (हिन्दुस्तानी संगीत- तबला), अबीर हुसैन (हिन्दुस्तानी संगीत- सरोद), श्री कृष्ण मोहन और राम कुमार मोहन-त्रिचुर बंधु (संयुक्त पुरस्कार) (कर्नाटक संगीत- गायन), साईं गिरधर (कर्नाटक संगीत- मृदंग), अश्विन आनंद (कर्नाटक संगीत- वीणा) और बी. श्री सुन्दर कुमार (कर्नाटक संगीत - कंजीरा) ।

नृत्य क्षेत्र में चयनित आठ युवा कलाकार हैं : ज्योत्स्ना जगन्नाथ (भरतनाट्यम), संजुक्ता सिन्हा (कथक), संजेनबम करुणा देवी (मणिपुरी), मृत्युंजय केशव प्रसाद (कुचपुड़ी), शाश्वती गराई घोष (ओडिसी), ऊषारानी बैश्य (सत्रिय), कलामंडलम रचिता रवि (मोहिनीअट्टम) और कृष्णेन्दु के. जे. (अन्य मुख्य पारम्परिक नृत्य और नाट्यनृत्य- कुटियाट्टम) ।

रंगमंच के क्षेत्र में चयनित आठ कलाकार हैं : मनीष जोशी (नाट्यलेखन), केदार ठाकुर और मोहित ताकलकर (निर्देशन), नीरज गुप्ता और विक्रान्त शर्मा (अभिनय), सोमा दास (मूक अभिनय), गगन मिश्रा (रंगमंच से सम्बद्ध कलाएँ-प्रकाश) और जयचन्द्र वर्मा रेकान्दर (अन्य प्रमुख पारम्परिक रंगमंच - सुरभि थिएटर) ।

पारम्परिक/लोक/जनजातीय संगीत, नृत्य/रंगमंच और पुतुल कला के क्षेत्र से चयनित आठ कलाकार हैं : सोनिया शिर्साट (पारम्परिक संगीत - गोवा), चाइनिस गिल (लोक संगीत - पंजाब), गुरुमायम बिशेश्वर शर्मा (थांग-टा मणिपुर), चौधरी रवि कुमार (पारम्परिक रंगमंच- ओग्दुकथा, तेलंगाना), पी. थिलगावती (पारम्परिक रंगमंच- कट्टैकूत्थू, तमिलनाडू), दुष्यंत कुमार द्विवेदी (पण्डवानी, छत्तीसगढ़), एस. गोपी और राजीव पुलावर (पुतुल कला) ।

उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार के अंतर्गत 25000/- (पच्चीस हजार रुपए मात्र) की नकद धनराशि भेंट की जाती है। एक विशेष समारोह में संगीत नाटक अकादेमी के अध्यक्ष द्वारा सभी कलाकारों को इस सम्मान से नवाजा जाएगा।

ऋता स्वामी चौधरी

सचिव
संगीत नाटक अकादेमी